

# RADHA VOCATIONAL TRAINING CENTER

ADDRESS: KENAUNA CHAURAHA, AMARI, BASTI, UTTAR PRADESH (272155)  
[www.rnveducation.co.in](http://www.rnveducation.co.in) E\_mail-rnv.educ@gmail.com, Ph. - 09161072200, 07379646766

## ADMISSION FORM

Photo/ फोटो

Photo/ फोटो

Signature /हस्ताक्षर

signature/हस्ताक्षर

thumb/ अंगूठा

thumb/ अंगूठा

1. Courses For Applied/ आप जिस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं, को टिक मार्क करें।

ADCA, ADCAT, ADCIT, DCA, CCA, DTP, TALLY ERP 9.0, STCA, CCC, सिलाई, कढ़ाई, मेंहदी, व्यूटी पार्लर, पेंटिंग

2. Other courses/ अन्य कोर्स

3. STUDENT'S NAME/ अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी बड़े अक्षरों में।

4. FATHER'S NAME/पिता का नाम।

5. MOTHER'S NAME/ माता का नाम।

6. DATE OF BIRTH/जन्म तिथि ।

- GENDER/लिंग ।

MALE/पुरुष

FEMALE/महिला

7. HIGHEST QUALIFICATION/ अधिकतम शैक्षिक योग्यता ।

- PASSING YEAR/पास का वर्ष ।

8. CONTACT/सम्पर्क ।

9. ADDRESS/पता ।

10. CITY/शहर।

- PIN CODE/डाक कोड।

11. STATE/राज्य।

- E\_mail-

EMAIL ID

12. COST/जाति।

GENERAL/सामान्य

OBC/पिछड़ा

SCHEDULED/अति पिछड़ा

AADHAR/आधार।

**Declaration:** I hereby declare that the information supplied in this application and the documentation supporting it is correct and complete to the best of my knowledge. I acknowledge that the provision of incorrect information or documentation or the withholding of information or documentation relating to my application may result in cancellation of any offer or enrollment made based on this application. If further undertake and guarantee to pay all installments in time offered as per the norms of RNV. And I am aware that fees once paid are not refundable under any circumstances. I here under sign in affirmation to the above and to the rules and regulations printed overleaf, which I have read, understood and agreed.

Admission Date

Applicant signature